



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 24—दिसम्बर 30, 2011 (पौष 3, 1933)

No. 52]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 24—DECEMBER 30, 2011 (PAUSA 3, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 2011

रक्षा (एमएस)/अनुभाग

सं. 584, दिनांक 21 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति, अपने अवैतनिक
वैयक्तिक स्टाफ में 01 नवम्बर 2011 से निम्नलिखित नियुक्ति करती
हैं:--

अवैतनिक नौ सेना एडीसी

वाईस एडमिरल डी के जोशी, प वि से मै, अ वि से मै, यु से मै,
एन एम, वि से मै (01507 जेड)

आर सुन्दर
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 585, दिनांक 21 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
नियुक्ति करते हैं:--

श्री पी बालासुब्रमनियन, वैज्ञा 'ई' को हवाई वितरण अनुसंधान एवं
विकास संस्थान (एडीआरडीई), आगरा में एक साल की परखावधि
पर दिनांक 11 जनवरी, 2010 (पूर्वाह) से वेतन (पे बैंड-4) में
रुपये 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रुपये 8,700/- के वेतनमान में।

हरीश मोहन
उप निदेशक (कार्मिक)

सं. 586, दिनांक 21 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
नियुक्ति करते हैं:--

श्री एम वी एल नरसिम्हा राव को उप मुख्य संनिर्माण अभियन्ता, ग्रुप
'ए' के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डीआरडीओ में 10 अगस्त,
2011 (पूर्वाह) से पे बैंड रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड पे
रु. 7,600/- पर।

बी पी सिंह
उप-निदेशक (कार्मिक ए 2)

सं. 587, दिनांक 22 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति महोदय, स्थायी कमीशन प्रदान किए गए निम्नलिखित अफसर की सेवा की पुष्टि करते हैं, जो उनके नामों के आगे लिखी तारीख से प्रभावी होगा :--

भारतीय वायु सेना
शिक्षा शाखा

फ्ला अफसर एम के राजेश (30235) शिक्षा, 20 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

तरूण खरे
विंग कमांडर
जेडीपीओ-3 (डी)

सेना शाखा

सं. 588, दिनांक 22 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना
स्थायी आयोग

लेफ्टि कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

वैयक्तिक सं., नाम, आर्म व मूल रैंक की तिथि

(आईसी-27303वाई) आई एस राठी, आर्टी, 01 जनवरी 1996

(आईसी-38872एम) पी के बतरा, इन्ट, 01 फरवरी 2005

(आईसी-41554) डी मित्रा, एएडी, 15 मार्च 2006

(आईसी-42810) वी के संजू, आर्टी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-43000) एस गर्ग, एएससी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-43545) जे पी सेकिया, इंफैंट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-44491) जसवीर सिंह, इंफैंट्री, 01 जनवरी 2008

(आईसी-52702) पी आहूजा, इंफैंट्री, 11 अक्टूबर 2010, किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

टी के दास
उप निदेशक
एमएस-8ए

थल सेना शाखा

सं. 589, दिनांक 23 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना
स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टीएस) के पद पर

विंग कमांडर अरविंद शर्मा (एमआर-06495एन) (एएफ-19337एस),
20 मई 2011

विंग कमांडर डी के दूबे (एमआर-06209एफ) (एएफ-19326एच),
20 मई 2011

विंग कमांडर ए डी उपाध्याय (एमआर-06403डब्ल्यू) (एएफ-18671के),
01 जून 2011

विंग कमांडर (श्रीमती) एस श्रीधर (एमआर-06298एल)
(एएफ-19338ए), 05 जून 2011

विंग कमांडर पी सी घोष (एमआर-06487पी) (एएफ-19340एस),
08 जून 2011

विंग कमांडर अनुपम द्विवेदी (एमआर-05484पी) (एएफ-18679),
01 जून 2011

विंग कमांडर जसवीर सिंह (एमआर-05484के) (एएफ-18678),
01 जून 2011

विंग कमांडर ए के मिश्रा (एमआर-06296एच) (एएफ-18922),
09 अप्रैल 2011

लेफ्टि कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

लेफ्टि कर्नल वी एस रामनाथ (एमआर-6207डब्ल्यू), 13 अप्रैल
2011

मेजर से लेफ्टि कर्नल के पद पर

देवाशिस बन्दोपाध्याय (एमआर-07344एफ), एएमसी, 23 जून 2011

संजीव बाजपेयी (एमआर-07346एम), एएमसी, 23 जून 2011

सुमीत रन्धावा (एमआर-08426डब्ल्यू), एएमसी, 18 मार्च 2011

नीतू शर्मा (एमआर-07091एक्स), एएमसी, 20 जनवरी 2010

मोहन प्रीत बाली (एमआर-08679एल), एएमसी, 04 अप्रैल 2011

नितीश खण्डेलवाल (एमआर-07342डब्ल्यू), एएमसी, 23 जून 2011

सर्जन कमांडर के पद पर

सोनाल रक्सपाल (नेवी-75790जेड) (एमआर-08387एच), एएमसी,
21 जनवरी 2011

यश पांडे
बिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 590, दिनांक 23 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना
स्पेशल कमीशन
कप्तान से मेजर

एससी संख्या, नाम व आर्म

(एससी-00484) मनोज कुमार देव, एएडी

(एससी-00485) सतिंदर सिंह, इन्ट
 (एससी-00486) चंद्र प्रकाश भडोला, एसी
 (एससी-00487) अजय कुमार पंडिता, आर्टी
 (एससी-00488) सुरिंदर सिंह राणा, आर्टी
 (एससी-00489) मुदोआना साम्बा सिवा रॉव, एओसी
 (एससी-00490) जे मुरली मोहन मूर्ती, ईएमई
 (एससी-00491) सुनील कुमार वी सी, आर्टी
 (एससी-00492) बाबुलाल यादव, आर्टी
 (एससी-00493) राकेश कुमार यादव, इन्ट

--11 जून 2011

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

(आईसी-63987) आनंद सिंह बिष्ट, इंफैंट्री, 12 जून 2010

प्रभात रॉस
 उप निदेशक
 एमएस-8सी

सं. 591, दिनांक 23 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर के रैंक में

कैप्टन आर भुयान (टीए-42559), इंफैंट्री, 02 अप्रैल 2011

अल्का जोशी
 अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 592, दिनांक 24 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करती हैं :--

नियमित सेना

सेना शिक्षा कोर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार चन्द्रभूषण सिंह (जेसी-802546ए), 01 मई 2011

सूबेदार रणवीर सिंह रावत (जेसी-802573के), 01 मई 2011

सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-802610एम), 04 मई 2011 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)

सूबेदार बृजेश सिंह (जेसी-802622एफ), 08 जुलाई 2011#

सूबेदार रमाकान्त शुक्ल (जेसी-802653एफ), 23 जून 2011#

सूबेदार सतीश चन्द्र वानखेडे (जेसी-802677एल), 02 जुलाई 2011#

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाएगी)

सूबेदार अजय कुमार यादव (जेसी-802683वाई), 06 जुलाई 2011&

सूबेदार अशोक कुमार त्यागी (जेसी-802723पी), 02 जुलाई 2011&

&(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाएगी)

सूबेदार चन्द्र भान गुप्ता (जेसी-802553डब्ल्यू), 01 अगस्त 2011

सूबेदार अरुण कुमार राय (जेसी-802729डब्ल्यू), 01 अगस्त 2011

सूबेदार आदित्य नाथ मिश्रा (जेसी-802739ए), 02 अगस्त 2011&

सूबेदार लक्ष्मी नारायण मिश्रा (जेसी-802759एन), 01 अगस्त 2011

सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-802786एक्स), 01 अगस्त 2011

सूबेदार अमर नाथ सिंह यादव (जेसी-802788एच), 06 अगस्त 2011&

सूबेदार रवि कुमार (जेसी-802789एल), 01 अगस्त 2011

सूबेदार राम सेवक सिंह (जेसी-802796एफ), 01 अगस्त 2011

&(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाएगी)

सूबेदार राज कुमार परमार (जेसी-802797के), 01 सितम्बर 2011

सूबेदार ए राजू मोहम्मद (जेसी-802801एफ), 01 सितम्बर 2011

सूबेदार रणधीर सिंह (जेसी-802815एफ), 01 सितम्बर 2011

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार/लिपिक भोसले दिनकर संभाजी (जेसी-803988एल), 02 मई 2011@

@(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार मोहन राम (जेसी-803704डब्ल्यू), 08 जुलाई 2011#

नायब सूबेदार सत्य प्रकाश (जेसी-803705वाई), 04 जुलाई 2011#

नायब सूबेदार राकेश सिंह चौहान (जेसी-803707के), 01 जुलाई 2011#

नायब सूबेदार कैलाश चन्द्र (जेसी-803708एम), 04 जुलाई 2011#

नायब सूबेदार गिरधारी लाल चौयल (जेसी-803709पी), 01 जुलाई 2011#

नायब सूबेदार उपेन्द्र सिंह बिष्ट (जेसी-803710के), 22 जुलाई 2011#

नायब सूबेदार मनोज कुमार रघुवंशी (जेसी-803711एम), 02 जुलाई 2011#

नायब सूबेदार/लिपिक निर्मल महाजन (जेसी-803989एन), 06 जून 2011#

#(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सत्येन्द्र सिंह (जेसी-803712पी), 20 जुलाई 2011&

नायब सूबेदार राम सनेही सिंह (जेसी-803713एक्स), 19 जुलाई 2011&

नायब सूबेदार संदीप कुमार (जेसी-803714ए), 01 जुलाई 2011

नायब सूबेदार राम किशोर (जेसी-803715एच), 04 जुलाई 2011&

नायब सूबेदार लोकनाथ महापात्र (जेसी-803716एल), 12 जुलाई 2011&

&(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार हुकम चन्द्र वर्मा (जेसी-803717एन), 01 अगस्त 2011

नायब सूबेदार अमर पाल सिंह (जेसी-803719वाई), 01 अगस्त 2011

नायब सूबेदार गया प्रसाद (जेसी-803721डब्ल्यू), 01 अगस्त 2011

नायब सूबेदार गणेश राम (जेसी-803722वाई), 01 अगस्त 2011

नायब सूबेदार बिजय कुमार दास (जेसी-803723एफ), 02 अगस्त 2011\$

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार (जेसी-803724के), 01 अगस्त 2011

नायब सूबेदार सुमंता हाजरा (जेसी-803725एम), 10 अगस्त 2011\$

नायब सूबेदार बिमल कुमार (जेसी-803726पी), 16 अगस्त 2011\$

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-803727एक्स), 01 अगस्त 2011

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह बिष्ट (जेसी-803728ए), 06 अगस्त 2011\$

नायब सूबेदार जसलिन थोमस (जेसी-803729एच), 01 अगस्त 2011

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-803730एक्स), 10 सितम्बर 2011\$

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-803731ए), 01 अगस्त 2011

नायब सूबेदार राज किशोर सिंह (जेसी-803732एच), 10 अगस्त 2011\$

नायब सूबेदार किशोर सिंह (जेसी-803735डब्ल्यू), 01 अगस्त 2011

नायब सूबेदार अनूप कुमार (जेसी-803736वाई), 01 अगस्त 2011

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-803737एफ), 01 अगस्त 2011

नायब सूबेदार भान सिंह (जेसी-803738के), 02 सितम्बर 2011\$

नायब सूबेदार सुरेन्द्र राम गौड़ (जेसी-803742एम), 01 अगस्त 2011

नायब सूबेदार भगवान बिसोई (जेसी-803743पी), 10 सितम्बर 2011\$

\$(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सवाई सिंह तनवर (जेसी-803746एच), 12 सितम्बर 2011*

नायब सूबेदार भूपाल सिंह मनराल (जेसी-803747एल), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार राकेश चन्द्र चतुर्वेदी (जेसी-803748एन), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार गोपाल जी पाण्डेय (जेसी-803750एल), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-803752डब्ल्यू), 22 सितम्बर 2011*

नायब सूबेदार चन्द्र वीर सिंह (जेसी-803756एम), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार बाबूचन्द (जेसी-803757पी), 03 सितम्बर 2011*

नायब सूबेदार रिछपाल सिंह (जेसी-803758एक्स), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार नीरज कुमार (जेसी-803759ए), 05 सितम्बर 2011*

नायब सूबेदार/लिपिक चरण सिंह (जेसी-803990एच), 01 सितम्बर 2011

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार/लिपिक मेजर सिंह (जेसी-804008एल), 01 अक्टूबर 2011

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 9511194के अब जेसी-804481डब्ल्यू), 25 मार्च 2011&

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाएगी)

हवलदार जोसफ के ए (सं. 9511196पी अब जेसी-804483एफ), 18 जून 2011@

हवलदार/लिपिक पी सरवणन (सं. 9510174के अब जेसी-804484के), 01 जून 2011

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाएगी)

हवलदार मोहनन जी (सं. 9511084पी अब जेसी-804485एम), 04 अगस्त 2011\$

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जून 2011 से दी जाएगी)

हवलदार अनिल कुमार (सं. 9511197एक्स अब जेसी-804486पी),
01 जुलाई 2011

हवलदार देवेन्द्र कुमार यादव (सं. 9511198ए अब जेसी-804487एक्स),
01 जुलाई 2011

हवलदार जयदेवन आशारी एम (सं. 9511201एम अब जेसी-
804488ए), 01 जुलाई 2011

हवलदार सुरेश कुमार बी (सं. 9511205एल अब जेसी-804489एच),
01 जुलाई 2011

हवलदार जयविन्द पाण्डेय (सं. 9511209एफ अब जेसी-
804490एक्स), 01 जुलाई 2011

हवलदार विजय सिंह चौहान (सं. 9511213के अब जेसी-804491ए),
06 जुलाई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाएगी)

हवलदार लक्ष्मण सिंह महर (सं. 9511216एक्स अब जेसी-
804492एच), 01 अगस्त 2011

हवलदार सन्तोष कुमार के (सं. 9511218एच अब जेसी-804493एल),
01 अगस्त 2011

हवलदार विनोद चौहान (सं. 9511222एल अब जेसी-804494एन),
01 अगस्त 2011

हवलदार तलविन्द्र सिंह (सं. 9511223एन अब जेसी-804495डब्ल्यू),
01 अगस्त 2011

हवलदार जीयो पी मैथ्यू (सं. 9511224डब्ल्यू अब जेसी-804496वाई),
01 अगस्त 2011

हवलदार सति कुमार (सं. 9511225वाई अब जेसी-804497एफ),
01 अगस्त 2011

हवलदार तम्पि कुन्जु टी (सं. 9511226एफ अब जेसी-804498के),
01 अगस्त 2011

हवलदार मनोज कुमार सी (सं. 9511231एम अब जेसी-804499एम),
01 अगस्त 2011

हवलदार अम्बिलीकुटन पी (सं. 9511234ए अब जेसी-804501वाई),
01 अगस्त 2011

हवलदार हरीदासन नागतमीत्तल (सं. 9511240एन अब
जेसी-804502एफ), 05 अगस्त 2011 **

हवलदार रविन्द्रन के पी (सं. 9511241डब्ल्यू अब जेसी-804503के),
01 अगस्त 2011

हवलदार राम करण (सं. 9511244के अब जेसी-804504एम),
06 अगस्त 2011 **

हवलदार राज सिंह (सं. 9511245एम अब जेसी-804505पी),
01 अगस्त 2011

हवलदार बच्चू सिंह चौधरी (सं. 9511246पी अब जेसी-804506एक्स),
01 अगस्त 2011

हवलदार मदन लाल (सं. 9511248ए अब जेसी-804507ए),
01 अगस्त 2011

हवलदार सुभाष कुमार चौहान (सं. 9511249एच अब जेसी-
804508एच), 01 अगस्त 2011

हवलदार प्रवीण कुमार गौतम (सं. 9511250एक्स अब जेसी-
804509एल), 01 अगस्त 2011

हवलदार खलील अहमद (सं. 9511251ए अब जेसी-804510ए),
01 अगस्त 2011

हवलदार राजिंदर शर्मा (सं. 9511254एन अब जेसी-804511एच),
01 अगस्त 2011

हवलदार तेज बहादुर सिंह (सं. 9511259एम अब जेसी-804512एल),
01 अगस्त 2011

**(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाएगी)

हवलदार/लिपिक भास्कर एस (सं. 9510175एम अब जेसी-
804513एन), 16 सितम्बर 2011#

हवलदार रणजीत कुमार (सं. 9511260एफ अब जेसी-804514डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2011

हवलदार जुगेन्द्र सिंह (सं. 9511261के अब जेसी-804515वाई),
01 सितम्बर 2011

हवलदार सुरेश चन्द्र गिरी (सं. 9511262एम अब जेसी-804516एफ),
01 सितम्बर 2011

हवलदार विजय कुमार (सं. 9511263पी अब जेसी-804517के),
01 सितम्बर 2011

हवलदार कुलदीप राज (सं. 9511264एक्स अब जेसी-804518एम),
01 सितम्बर 2011

हवलदार राजेंद्र सिंह गुर्जर (सं. 9511266एच अब जेसी-804519पी),
01 सितम्बर 2011

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 9511268एन अब जेसी-804520के),
01 सितम्बर 2011

हवलदार शशिधर आल्वा बी (सं. 9511270एल अब जेसी-804521एम),
01 सितम्बर 2011

हवलदार अवतार सिंह (सं. 9511271एन अब जेसी-804522पी),
01 सितम्बर 2011

हवलदार सजी के बी (सं. 9511273वाई अब जेसी-804524ए),
01 सितम्बर 2011

हवलदार कुलदीप कटोच (सं. 9511276एम अब जेसी-804525एच),
01 सितम्बर 2011

हवलदार कमल कुमार सी वी (सं. 9511284एल अब जेसी-804527एन), 01 सितम्बर 2011

हवलदार अर्जुन सिंह चौहान (सं. 9511287वाई अब जेसी-804528डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2011

हवलदार सुरेश कुमार के (सं. 9511289के अब जेसी-804529वाई), 01 सितम्बर 2011

हवलदार करतार सिंह (सं. 9511290वाई अब जेसी-804530एन), 01 सितम्बर 2011

हवलदार मदन लाल (सं. 9511292के अब जेसी-804531डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2011

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाएगी)

प्रेम प्रकाश
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 593, दिनांक 24 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करती हैं :--

नियमित सेना

रक्षा सुरक्षा कोर

स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार राजेन्दर कुमार (जेसी-370372एफ), 01 सितम्बर 2011

स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार तिल बहादुर राई (जेसी-634396वाई), 01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार सुधीर कुमार (जेसी-841636एक्स), 01 मई 2011

नायब सूबेदार नरेन्द्रा प्रसाद (जेसी-841653के), 01 जून 2011

नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जेसी-754098वाई), 01 अगस्त 2011

नायब सूबेदार मोहिन्दर (जेसी-240228एच), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-267345एक्स), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार पी एस एन स्वामी (जेसी-724446ए), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार तेजपाल सिंह चौहान (जेसी-724510एम), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार एम उन्निकृष्णन (जेसी-306743एक्स), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार नृपेन्द्रा सिन्हा (जेसी-548630ए), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार मेइतानकेइ संगबाम रनजीत सिंह (जेसी-548954एल), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जेसी-841702पी), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार अलम शेर (जेसी-183409एम), 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार कृष्ण कुमार (सं. 10358658एफ अब जेसी-842968एन), 01 जून 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011)

हवलदार राजिन्दर सिंह (सं. 10465493एल अब जेसी-842976एम), 01 जुलाई 2011 **

हवलदार रामे गौडा (सं. 10419851एम अब जेसी-842979ए), 01 जुलाई 2011 **

हवलदार रनवीर सिंह (सं. 10181566एक्स अब जेसी-842981एक्स), 16 जुलाई 2011 **

हवलदार सीता राम तिवारी (सं. 14357274वाई अब जेसी-842982ए), 01 जुलाई 2011 **

**(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011)

हवलदार राम सिंह जाट (सं. 1056546एच अब जेसी-843000पी), 01 अगस्त 2011 ***

हवलदार बुवेन्द्रन एस (सं. 10358158के अब जेसी-843001एक्स), 01 अगस्त 2011 ***

हवलदार वी नारायणा रेड्डी (सं. 10358700पी अब जेसी-843002ए), 01 अगस्त 2011 ***

हवलदार वी चन्द्रा बाबु (सं. 10358676के अब जेसी-843003एच), 01 अगस्त 2011 ***

हवलदार राजबीर सिंह (सं. 10134483एफ अब जेसी-843004एल), 01 अगस्त 2011 ***

हवलदार बाबू राम (सं. 10479191के अब जेसी-843005एन), 01 अगस्त 2011 ***

हवलदार अलेगजेन्डर पी वी (सं. 10373628एफ अब जेसी-843006डब्ल्यू), 01 अगस्त 2011 ***

हवलदार अनिल कुमार गुरंग (सं. 5748894ए अब जेसी-843007वाई), 01 अगस्त 2011 ***

हवलदार भारत सिंह (सं. 2974991डब्ल्यू अब जेसी-843008एफ), 01 अगस्त 2011 ***

***(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011)

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 10135228एफ अब जेसी-843009के),
12 अगस्त 2011***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011)

हवलदार वरकी पी सी (सं. 10290498एल अब जेसी-843012के),
01 सितम्बर 2011****

हवलदार सूबा सिंह (सं. 13853355एन अब जेसी-843013एम),
01 सितम्बर 2011****

हवलदार सुरजन सिंह (सं. 2467690एफ अब जेसी-843014पी),
01 सितम्बर 2011****

हवलदार धनेश ओझा (सं. 14538852एक्स अब जेसी-843015एक्स),
02 सितम्बर 2011****

हवलदार पूरन सिंह (सं. 10302743एक्स अब जेसी-843018एल),
01 सितम्बर 2011****

हवलदार उदय शंकर चौधरी (सं. 1068313एन अब
जेसी-843019एन), 01 सितम्बर 2011****

हवलदार बिष्णु नायक (सं. 4254711डब्ल्यू अब जेसी-843020एच),
01 सितम्बर 2011****

हवलदार दिलप्रसाद राय (सं. 9413882एम अब जेसी-843021एल),
01 सितम्बर 2011****

हवलदार आर राजा राम (सं. 1367467एम अब जेसी-843022एन),
02 सितम्बर 2011****

हवलदार शादी राम (सं. 10135182के अब जेसी-843023डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2011****

हवलदार गोरखु राम (सं. 10361105डब्ल्यू अब जेसी-843024वाई),
01 सितम्बर 2011****

हवलदार दौलत राम (सं. 10361150एच अब जेसी-843025एफ),
01 सितम्बर 2011****

**** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार/लिपिक खुशी राम यादव (सं. 14911335के अब
जेसी-842993एम), 01 अक्टूबर 2011*****

***** (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011)

हवलदार/लिपिक एम डी ओस्मान अली (सं. 14903410एन अब
जेसी-842992के), 01 अगस्त 2011*****

***** (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011)

हवलदार/लिपिक बिपिन कुमार सिंह (सं. 4266002एन अब
जेसी-843010वाई), 01 सितम्बर 2011*****

हवलदार/लिपिक के नारायणन (सं. 10166092के अब
जेसी-843011एफ), 01 सितम्बर 2011*****

***** (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार पी सिवनेसन (सं. 10451984डब्ल्यू अब जेसी-842932पी),
01 जून 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011)

हवलदार डी बाबु (सं. 10165605एफ अब जेसी-842945एम),
01 मई 2011**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2011)

हवलदार के पी वेणु (सं. 10165532ए अब जेसी-842974एफ),
01 जुलाई 2011***

हवलदार वी लक्स्मैय्या (सं. 10328133एच अब जेसी-842975के),
01 जुलाई 2011***

हवलदार अवतार सिंह (सं. 10361262एच अब जेसी-842977पी),
01 जुलाई 2011***

हवलदार अनिल कुमार (सं. 10358512एन अब जेसी-842978एक्स),
01 जुलाई 2011***

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 13952080एन अब जेसी-842980पी),
01 जुलाई 2011***

हवलदार सुर्जित सिंह लम्बोरिया (सं. 14324687एच अब
जेसी-842983एच), 01 जुलाई 2011***

हवलदार राम कैलाश त्रिवेदी (सं. 14294103पी अब
जेसी-842984एल), 01 जुलाई 2011***

हवलदार प्रेम नारायण त्रिपाठी (सं. 14364252एच अब
जेसी-842985एन), 01 जुलाई 2011***

हवलदार प्रशोभिथन डी (सं. 10359407के अब जेसी-842986डब्ल्यू),
01 जुलाई 2011***

हवलदार आशोक कुमार (सं. 14451011वाई अब जेसी-842987वाई),
01 जुलाई 2011***

हवलदार उग्रा राम (सं. 10302766वाई अब जेसी-842988एफ),
01 जुलाई 2011***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011)

हवलदार यारनाले वीरभद्रा बसापा (सं. 10149597के अब
जेसी-842994पी), 01 अगस्त 2011****

हवलदार करनैल सिंह (सं. 4545497डब्ल्यू अब
जेसी-842995एक्स), 01 अगस्त 2011****

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 3972484ए अब जेसी-842996ए),
01 अगस्त 2011****

हवलदार मान बहादुर गुरुंग (सं. 5341788एल अब जेसी-842997एच), 01 अगस्त 2011****

हवलदार किशन चंद (सं. 3975932एम अब जेसी-842998एल),
01 अगस्त 2011****

हवलदार हरिधन पाल (सं. 8027080के अब जेसी-842999एन),
01 अगस्त 2011****

****(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार/लिपिक गोवर्दन सिंह पठानिया (सं. 2468605ए अब जेसी-842990वाई), 01 अगस्त 2011*****

हवलदार/लिपिक रनवीर सिंह (सं. 4550890एच अब जेसी-842993एम), 01 अगस्त 2011*****

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011)

प्रदीप कुमार
अवर सचिव

थलसेना विभाग (एमजीओ) ई एम ई कार्मिक

सं. 594, दिनांक 24 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

सुरजीत सिंह (सं. 14590106के अब जेसी-766245एच), 01 सितम्बर 2011

मन बहादुर (सं. 14590270एफ अब जेसी-766246एल), 01 सितम्बर 2011

रोहताश सिंह (सं. 14620762एच अब जेसी-766255एम), 03 अगस्त 2011/01 जुलाई 2011*

हवलदार से नायब सूबेदार अटो टेक बी वेहीकल के रैंक में

प्रवीन कुमार थापा (सं. 14573539एल अब जेसी-765299एक्स),
01 अक्टूबर 2011

हवलदार से नायब सूबेदार अर्मायेन्ट टेक (एएफवी/एडी) के रैंक में

कुलवंत चंद (सं. 14588368एफ अब जेसी-766263एल),
01 सितम्बर 2011

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक इलेक्ट बी वेहीकल के रैंक में

कुमार सकिदानन्द सिंह (सं. 14585670डब्ल्यू अब जेसी-766264एन),
02 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011*

श्री कृष्ण तोमर (सं. 14587366के अब जेसी-766265डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2011

हवलदार से नायब सूबेदार मशिनिस्ट के रैंक में

मिगेन बरुआ (सं. 14595573एल अब जेसी-766254के),
01 सितम्बर 2011

शिश राम (सं. 14595216एच अब जेसी-766253एफ), 09 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

अजय कुमार झा (सं. 14565433एक्स अब जेसी-766224एम),
13 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011*

*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

एन के कश्मीरा
अवर सचिव

वायुसेना

सं. 595, दिनांक 25 नवम्बर 2011--माननीय राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायुसेना

फ्ला लेफ्टि से स्क्वाँ ली के मूल रैंक में

एफ (पी) शाखा

एस के भसीन (28084), 21 अगस्त 2010 से प्रभावी

एन हूडा (28085), ए आर भावगाँवकर (28086), 19 जून 2010 से प्रभावी

फ्ला अफसर से फ्ला लेफ्टि के मूल रैंक पर

प्रशासन शाखा

आर अरुण कुमार (29753), वी के धनकर (29750), टी एन स्वामी (29751), अभिमन्यु सिंह (29752), 16 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

राकेश कुमार त्रिपाठी (29759), ए एस रावत (29758), मुकुन्द शर्मा (29760), प्रवीण कण्डाला (29754), बी चक्रबोर्ती (29755), एस पी सिंह (29756), टी वी भोसले (29757), 16 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

लेखा शाखा

सलिल सिंह (29761), 16 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

आर सक्सेना (29768), वी किरण (29767), बी सिंह (29769), आर गोस्वामी (29766), डी मेथ्यू (29763), जी एस चौहान (29765), राजकुमार एम (29764), 16 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

मेट शाखा

आर शर्मा (29412), एस डी सिंह (29411), 16 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

एम सुनील कुमार (29572), डी पी सिंह (29571), एन के सिंह (29570), यू के त्रिपाठी (29569), एम एन अफज़ल (29568), वी सी राजू (29573), 16 जून 2009 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

वीरेन्द्र सिंह (29574), 16 जून 2009 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

सुनील बल्हारा (29770), 16 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

ए के आर्या (29771), 16 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

संदीप राणा (29603), 27 जून 2008 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

श्रीराम नटराजन (29630), जयकृष्णन थेक्कुमपट्ट (29627), चेतन गोसाई (29620), अंकित शर्मा (29619), साकेत सहगल (29617), शौर्य बाजपेई (29616), एस शर्मा (29648), संदीप शर्मा (29615), कवि प्रसाद दाश (29614), पंकज नारायण (29608), पी आर कलिडिंदी (29607), जोते बाला महेन्द्र (29606), भरत नायडू गंगिनेनी (29605), आशीष वशिष्ठ (29604), बलदीप सिंह (29645), ए लुईस (29672), चेरामन्न सी (29650), टी एस बाबा (29649), अमित कुमार लवानिया (29640), प्रेमवीर सिंह (29639), प्रीतपाल सिंह (29644), अपूर्वा गौरव (29643), सन्नी धनराज शर्मा (29642), अंशुमन होता (29641), फहाद कमाल (29638), सुमीत कुमार (29636), फिरोज़ मीरन साहिब (29634), किशन चन्द्र त्रिपाठी (29633), अंकित दीक्षित (29647), तनिश अरोड़ा (29646), राहुल त्रिपाठी (29629), विजित कुमार (29626), फिदाउल्लाह जाफरी (29625), शुभांशु श्रीवास्तव (29624), विपुल उपाध्याय (29621), नवनीत गौड़ (29612), शलभ शर्मा (29611), वी आर के मुप्पा (29609), जय बिहारी माथुर (29632), दीपक शर्मा (29631), 27 जून 2008 से प्रभावी

फ्ला अफसर से फ्ला लेफ्ट के मूल रैंक में

अल्प सेवा कमीशन

ए ई (एम) शाखा

इंदु यादव (29655), दीपेश कुमार यादव (29652), 02 जुलाई 2009 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

राजित कुमार (29653), प्रियंका शादंगी (29668), भावना चौहान (29667), अर्चना श्रीनिवास (29663), खुशबू गुप्ता (29660), प्रज्ञा

ताम्बे (29659), अर्चना सुभाष राय (29658), कंचन शर्मा (29656), शोभित जौहरी (29654), मोहम्मद इस्माइल (29637), मोहम्मद अकरम मुअल्लिम (29613), दिप्ति दूबे (29664), सुवासिता खरे (29666), तुलिका सिंह (29665), 02 जुलाई 2009 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

निशा गोवर्धन (29669), 08 जुलाई 2009 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

एच के सिंह (29567), 01 जुलाई 2009 से प्रभावी

सी वी सुरेश (29601), 16 जुलाई 2009 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

के बिष्ट (29580), ए मिश्रा (29581), डी सोनकर (29582), 16 जून 2009 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

एस गर्ग (29584), 16 जून 2009 से प्रभावी

लेखा शाखा

वी पी कामाक्षी (29586), राजरत्न नेगी (29587), टी सिंह (29588), एन राणा (29589), अपेक्षा मिश्रा (29585), 16 जून 2009 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

रीना (29591), सी गुलिया (29590), एन फातिमा (29595), एस एस चित्रे (29594), के कुमारी (29593), के ठकुरी (29596), सुचेता (29592), 16 जून 2009 से प्रभावी

मेट शाखा

भारती वत्स (29173), अश्विनी भरत कदम (29172), 16 जून 2009 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

बी के दुबे (29775), पी के सिंह (29774), एच एस चाहर (29780), विकास कुमार (29772), वी एस परिहार (29779), सुनील कुमार (29781), पी सिंह (29782), एम शर्मा (29783), डी एस मलिक (29773), एस सी साहू (29778), आर शर्मा (29777), अंकुश गुप्ता (29776), 16 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

वी के शर्मा (29788), वी के जाधव (29789), आर के गुप्ता (29785), बी बी प्रकाश (29786), नरेश कुमार (29784), ए कुमार (29787), 16 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

लेखा शाखा

सूरज मथई (29790), 16 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

एस महाजन (29578), 16 जून 2009 से प्रभावी

लेखा शाखा

टी आर अनीश (29579), 16 जून 2009 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

ओ के त्रिपाठी (29526), ए एस सुनोज (29535), पी तेजोधर (29524), एस एस मिश्रा (29523), एस दत्ता (29522), पी सिन्हा (29521), एम कुमार (29530), ए साथी आनन्दन (29529), डी लोहकना (29528), डी के सांगवान (29527), ए एस डोगरा (29542), ए के झा (29540), के एम रे (29539), के आर दीपेश (29538), ए चतुर्वेदी (29541), जे के लोहानी (29520), एस चन्दर कांत (29534), एस दास (29533), एस सी सज्जा (29532), वाई एस रेड्डी (29531), एस एस चाहल (29537), एस लखवत (29536), ए के मिश्रा (29525), 16 जून 2009 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

आर आर के सिन्हा (29545), डी के महापात्रा (29546), डी डी कौरा (29547), ए शर्मा (29548), जी हरिप्रसाद (29543), सी आर गौदकर (29544), 16 जून 2009 से प्रभावी

लेखा शाखा

आर सिंह (29552), के राजौर (29553), एस वोहरा (29554), एन पी सिंह (29551), ए एम तिवारी (29550), एफ कारदोसो (29549), 16 जून 2009 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

एम प्रेम कुमार (29563), सिजोमोन के वी (29564), आर कुमार (29565), ए मुरलीधरन (29562), आमोद जोशी (29555), टी के सुमेश (29561), के जे एम रेड्डी (29557), वी कृष्णकुमार (29556), वी के शर्मा (29558), संजय कुमार (29559), के के शर्मा (29560), 16 जून 2009 से प्रभावी

मेट शाखा

एस दास (29566), अनिल (29171), 16 जून 2009 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

अदिति माधव (29798), वी शर्मा (29799), पी यादव (29800), पी वर्मा (29797), पी यादव (29801), के राणा (29804), पी चाहल (29803), ए सिंह (29802), 16 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

पी सिंह (29808), वी तोमर (29809), अर्पिता स्टीले (29810), शिल्पी शर्मा (29807), एस चोपड़ा (29805), पी जून (29806), 16 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

लेखा शाखा

सोनिया रेखी (29816), डी सिंह (29815), डी धर्माई (29814), एस बोहरा (29813), एस बिष्ट (29812), पल्लवी चौहान (29811), 16 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

ए सिन्हा (29817), एस पाण्डे (29818), 16 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

मेट शाखा

टी यादव (29413), 16 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

नविदिता शर्मा (29862), सपना जनार्दन (29859), ए के सिंह (29858), मनीष आहूजा (29857), रितु नायक (29860), शीतल तनवर (29863), भूमिका आनंद (29868), सुजाता (29867), परमिन्दर कौर (29866), नेहा गुप्ता (29865), सुमति चन्द्रा (29864), चारु शर्मा (29861), 07 जनवरी 2010 से प्रभावी

तरुण खरे

विंग कमांडर

संयुक्त निदेशक

कार्मिक अफसर-3(डी)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 596, दिनांक 25 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति सहर्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

कार्यकारी कोमोडोर से स्थायी कोमोडोर

रैंक, नाम, नं. तथा मूल रैंक प्रदान किए जाने की तारीख

कोमोडोर रणजीत सिंह (50993टी), इलेक्ट, 01 जुलाई 2010

रवि दत्त

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कृते महानिदेशक अनुसंधान एवं विकास

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 597, दिनांक 25 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

जी के सत्यनारायण, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डीआरडीओ में 31 मार्च 2011 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रुपये 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रुपये 4,600/- पर

के पदमावती, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डीआरडीओ में 14 जुलाई 2011 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रुपये 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रुपये 4,600/- पर

टी एन चेतनानंदा को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डीआरडीओ में 06 जून 2011 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रुपये 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रुपये 4,600/- पर

मोहम्मद मोइनूद्दीन खान, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डीआरडीओ में 12 मई 2011 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रुपये 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रुपये 4,600/- पर

कुमारी एम ए विजयालक्ष्मी, निजी सचिव, 'ए' ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डीआरडीओ में 08 जून 2011 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रुपये 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रुपये 4,600/- पर

वी पी सिंह
उप निदेशक (कार्मिक एए-2)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 598 दिनांक 25 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

एआरडीई, पुणे के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले पे बैंड + ग्रेड पे वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में व उसी स्थापना में दिनांक 01 जुलाई 2011 पूर्वाह्न से

नाम, पदनाम, पदोन्नति एवं पे बैंड + ग्रेड पे

ए एस अस्थाना, वैज्ञानिक ई, वैज्ञानिक एफ, रुपये 37,400--67,000 /- + 8,900/-

वी एस तम्हानकर, वैज्ञानिक ई, वैज्ञानिक एफ, रुपये 37,400--67,000 /- + 8,900/-

एल सी मून, वैज्ञानिक डी, वैज्ञानिक ई, रुपये 37,400--67,000/- + 8,700/-

हरीश मोहन
उप निदेशक (कार्मिक)

सेना शाखा

शुद्धि-पत्र

सं. 599 दिनांक 28 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

ले कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में
के स्थान पर

वैयक्तिक नं., नाम, आर्म तथा मूल रैंक की तिथि
आईसी-41997 एन के डबास, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006
पढ़ा जाए

वैयक्तिक नं., नाम, आर्म तथा मूल रैंक की तिथि
आईसी-41997 एन के डबास, इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2006

टी के दास
उप निदेशक
एम एस-8ए

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 24th December 2011

D(MS) SECTION

No. 584, dated 21st November 2011—The President has made the following appointment on her Honorary Personal Staff with effect from 01 Nov 2011 :—

Honorary Naval ADC wef 01 Nov 2011

Vice Admiral D K Joshi, PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (01507Z)

R SUNDER
Under Secy

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 585, dated 21st November 2011—The President is pleased to make the following appointment :—

Shri P Balasubramanian, to be temporary Scientist 'E' on probation for one year in ADRDE with effect from 11 Jan 2010 (F/N) in the Pay Band PB-4 Pay Scale of Rs. 37,400—67,000 + Grade Pay of Rs. 8,700/-

HARISH MOHAN
Dy Dir (Pers)

No. 586, dated 21st November 2011—The President is pleased to make the following appointment :—

Shri MVL Narasimha to be Dy Chief Construction Engineer, Gp 'A' on probation for one year in DRDO with effect from 10 Aug 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay of Rs. 7,600/-

VP SINGH
Dy Dir (Pers)

No. 587, dated 22nd November 2011—The President is pleased to confirmed the undermentioned officer was granted Permanent Commission, wef the date stated against his name :—

INDIAN AIR FORCE

EDUCATION BRANCH

Fg Offr MK Rajesh (30235), EDN wef 20 Dec 2008

TARUN KHARE
Wg Cdr
JDPO-3(D)

ARMY BRANCH

No. 588, dated 22nd November 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Subs Col (By Selection)

Pers No., Name, Arm & Subs Date

IS Rathee (IC-27303Y), Arty, 01 Jan 1996

PK Batra (IC-38872M), Int Corps, 01 Feb 2005

D Mitra (IC-41554), AAD, 15 Mar 2006

VK Sanjo (IC-42810), Arty, 15 Aug 2006

S Garg (IC-43000), ASC, 15 Aug 2006

JP Saikia (IC-43545), Arty, 15 Aug 2006

Jasbir Singh (IC-44491), Inf, 01 Jan 2008

P Ahuja (IC-50702), Inf, 11 Oct 2010 but seniority wef 01 May 2009 without effect on pay & pension

TK DAS
Dy Dir
MS-8A

ARMY BRANCH

No. 589, dated 23rd November 2011—The President is pleased to make the promotion of undermentioned officers with effect from the dates as indicated against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Wg Cdr to Gp Capt (Time Scale)

Wg Cdr Arvind Sharma (MR-06495N) (AF-19337S), 20 May 2011

Wg Cdr DK Dubey (MR-06209F) (AF-19326H), 20 May 2011

Wg Cdr AD Upadhyay (MR-06403W) (AF-18671K), 01 Jun 2011

Wg Cdr Mrs S Sreedhar (MR-06298L) (AF-19338A), 05 Jun 2011

Wg Cdr PC Ghosh (MR-06487P) (AF-19340S), 08 Jun 2011

Wg Cdr Anupam Dwivedi (MR-5484P) (AF-18679T), 01 Jun 2011

Wg Cdr Jasvir Singh (MR-5482K) (AF-18678R), 01 Jun 2011

Wg Cdr AK Mishra (MR-6296H) (AF-18922H), 09 Apr 2011

Lt Col to Col (Time Scale)

Lt Col VS Ramnath (MR-6207W) 13 Apr 2011

Maj to be Lt Col

Debasis Bandyopadhyay (MR-07344F), AMC, 23 Jun 2011
 Sanjeev Bajpayee (MR-07346M), AMC, 23 Jun 2011
 Sumeet Randhawa (MR-08426W), AMC, 18 Mar 2011
 Nitu Sharma (MR-07091X), AMC, 20 Jan 2010
 Mohan Preet Bali (MR-08679L), AMC, 04 Apr 2011
 Nitish Khandelwal (MR-07342W), AMC, 23 Jun 2011

Surg Lt Cdr to be Surg Cdr

Sonal Rakshpaul (75790Z) (MR-08387H), AMC, 21 Jan 2011

YASH PANDE
 Brig
 Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 590, dated 23rd November 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

SPECIAL COMMISSION

Capt to be Maj

Manoj Kumar Dev (SC-00484), AAD
 Satinder Singh (SC-00485), Int
 Chandra Prakash Bhadola (SC-00486), AC
 Ajay Kumar Pamdita (SC-00487), Arty
 Surinder Singh Rana (SC-00488), Arty
 Mudooana Samba Siva Rao (SC-00489), AOC
 J Murali Mohan Murthy (SC-00490), EME
 Sunil Kumar VC (SC-00491), Arty
 Babulal Yadava (SC-00492), Arty
 Rakesh Kumar Yadav (SC-00493), Int

—11 Jun 2011

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

Anand Singh Bisht (IC-63987), Inf

—12 Jun 2010

PRABHAT ROSS
 Dy Dir
 MS-8C

ARMY BRANCH

No. 591, dated 23rd November 2011—The President is pleased to make the following promotion :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Maj

Maj Rajul Bhuyan (TA-42559), Inf 02 Apr 2011

ALKA JOSHI
 Under Secy

ARMY BRANCH

No. 592, dated 24th November 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY EDUCATIONAL CORPS

To be Sub Maj

Sub Chandra Bhushan Singh (JC-802546A), 01 May 2011
 Sub Ranvir Singh Rawat (JC-802573K), 01 May 2011
 Sub Rajendra Singh (JC-802610M), 04 May 2011*
 *(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 May 2011 without effect on pay and allowances)
 Sub Brajesh Singh (JC-802622F), 08 Jul 2011#
 Sub Ramakant Shukla (JC-802653F), 23 Jun 2011#
 Sub Satish Chandra Wankhede (JC-802677L), 02 Jul 2011#
 # (Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)
 Sub Ajay Kumar Yadav (JC-802683Y), 06 Jul 2011\$
 Sub Ashok Kumar Tyagi (JC-802723P), 02 Jul 2011\$
 \$(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)
 Sub Chandra Bhan Gupta (JC-802553W), 01 Aug 2011
 Sub Arun Kumar Rai (JC-802729W), 01 Aug 2011
 Sub Aditya Nath Mishra (JC-802739A), 02 Aug 2011&
 Sub Lachhmi Narayan Mishra (JC-802759N), 01 Aug 2011
 Sub Rajbir Singh (JC-802786X), 01 Aug 2011
 Sub Amar Nath Singh Yadava (JC-802788H), 06 Aug 2011&
 Sub Ravi Kumar (JC-802789L), 01 Aug 2011
 Sub Ram Sewak Singh (JC-802796F), 01 Aug 2011
 & (Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Aug 2011 without effect on pay and allowances)

Sub Raj Kumar Parmar (JC-802797K), 01 Sep 2011	Nb Sub Mohinder Singh (JC-803731A), 01 Aug 2011
Sub A Raju Mohamed (JC-802801F), 01 Sep 2011	Nb Sub Raj Kishor Singh (JC-803732H), 10 Aug 2011&
Sub Randhir Singh (JC-802815F), 01 Sep 2011	Nb Sub Kishor Singh (JC-803735W), 01 Aug 2011
To be Sub	Nb Sub Anoop Kumar (JC-803736Y), 01 Aug 2011
Nb Sub/Clk Bhosale Dinkar Sambhaji (JC-803988L), 02 May 2011@	Nb Sub Om Prakash (JC-803737F), 01 Aug 2011
@(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)	Nb Sub Bhan Singh (JC-803738K), 02 Sep 2011&
Nb Sub Mohan Ram (JC-803704W), 08 Jul 2011#	Nb Sub Surendra Ram Ganjhu (JC-803742M), 01 Aug 2011
Nb Sub Satya Prakash Singh (JC-803705Y), 04 Jul 2011#	Nb Sub Bhagaban Bisoyi (JC-803743P), 10 Sep 2011&
Nb Sub Rakendra Singh Chauhan (JC-803707K), 01 Jul 2011#	&(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2011 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Kailash Chander (JC-803708M), 04 Jul 2011#	Nb Sub Sawai Singh Tanwar (JC-803746H), 12 Sep 2011*
Nb Sub Girdhari Lal Choyal (JC-803709P), 01 Jul 2011#	Nb Sub Bhupal Singh Manral (JC-803747L), 01 Sep 2011
Nb Sub Upendra Singh Bisht (JC-803710K), 22 Jul 2011#	Nb Sub Rakesh Chandra Chaturvedi (JC-803748N), 01 Sep 2011
Nb Sub Manoj Kumar Raghubanshi (JC-803711M), 02 Jul 2011#	Nb Sub Gopal Jee Pandey (JC-803750L), 01 Sep 2011
Nb Sub/Clk Nirmal Mahajan (JC-803989N), 06 Jun 2011#	Nb Sub Suresh Kumar (JC-803752W), 22 Sep 2011*
#(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)	Nb Sub/Clk Chandra Vir Singh (JC-803756M), 01 Sep 2011
Nb Sub Satender Singh (JC-803712P), 20 Jul 2011\$	Nb Sub Babu Chand (JC-803757P), 03 Sep 2011*
Nb Sub Ram Sanahi Singh (JC-803713X), 19 Jul 2011\$	Nb Sub Richpal Singh (JC-803758X), 01 Sep 2011
Nb Sub Sundeep Kumar (JC-803714A), 01 Jul 2011	Nb Sub Niraj Kumar (JC-803759A), 05 Sep 2011*
Nb Sub Ram Kishor (JC-803715H), 04 Jul 2011\$	Nb Sub Charan Singh (JC-803990H), 01 Sep 2011
Nb Sub Lokanath Mahapatra (JC-803716L), 12 Jul 2011\$	*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2011 without effect on pay and allowances)
\$(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)	Nb Sub/Clk Major Singh (JC-804008L), 01 Oct 2011
Nb Sub Hukam Chand Verma (JC-803717N), 01 Aug 2011	To be Nb Sub
Nb Sub Amar Pal Singh (JC-803719Y), 01 Aug 2011	Hav Surinder Kumar (No. 9511194K now JC-804481W), 25 Mar 2011*
Nb Sub Gya Prasad (JC-803721W), 01 Aug 2011	*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Ganesh Ram (JC-803722Y), 01 Aug 2011	Hav Joseph KA (No. 9511196P now JC-804483F), 18 Jun 2011&
Nb Sub Bijaya Kumar Das (JC-803723F), 02 Aug 2011&	Hav/Clk P Saravanan (No. 9510174K now JC-804484K), 01 Jun 2011
Nb Sub Pradeep Kumar (JC-803724K), 01 Aug 2011	&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Sumanta Hazra (JC-803725M), 10 Aug 2011&	Hav Mohanan G (No. 9511084P now JC-804485M), 04 Aug 2011\$
Nb Sub Bimal Kumar (JC-803726P), 16 Aug 2011&	\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jun 2011 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Suresh Kumar (JC-803727X), 01 Aug 2011	Hav Anil Kumar (No. 9511197X now JC-804486P), 01 Jul 2011
Nb Sub Surendra Singh Bisht (JC-803728A), 06 Aug 2011&	
Nb Sub Jesline Thomas (JC-803729H), 01 Aug 2011	
Nb Sub Subhash Chand (JC-803730X), 10 Sep 2011&	

Hav Devender Kumar Yadav (No. 9511198A now JC-804487X), 01 Jul 2011

Hav Jayadevan Asari M (No. 9511201P now JC-804488A), 01 Jul 2011

Hav Suresh Kumar B (No. 9511205L now JC-804489H), 01 Jul 2011

Hav Jayvindh Pandey (No. 9511209F now JC-804490X), 01 Jul 2011

Hav Vijay Singh Chouhan (No. 9511213K now JC-804491A), 06 Jul 2011#

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Laxman Singh Mahar (No. 9511216X now JC-804492H), 01 Aug 2011

Hav Santhosh Kumar K (No. 9511218H now JC-804493L), 01 Aug 2011

Hav Vinod Chauhan (No. 9511222L now JC-804494N), 01 Aug 2011

Hav Talvinder Singh (No. 9511223N now JC-804495W), 01 Aug 2011

Hav Geo P Mathew (No. 9511224W now JC-804496Y), 01 Aug 2011

Hav Sathy Kumar N (No. 9511225Y now JC-804497F), 01 Aug 2011

Hav Thampi Kunju T (No. 9511226F now JC-804498K), 01 Aug 2011

Hav Manoj Kumar C (No. 9511231M now JC-804499M), 01 Aug 2011

Hav Ambilikuttan P (No. 9511234A now JC-804501Y), 01 Aug 2011

Hav Haridasan Nagathmeethal (No. 9511240N now JC-804502F), 05 Aug 2011@

Hav Raveendran KP (No. 9511241W now JC-804503K), 01 Aug 2011

Hav Ram Karan (No. 9511244K now JC-804504M), 06 Aug 2011@

Hav Raj Singh (No. 9511245M now JC-804505P), 01 Aug 2011

Hav Bachchu Singh Chaudhary (No. 9511246P now JC-804506X), 01 Aug 2011

Hav Madan Lal (No. 9511248A now JC-804507A), 01 Aug 2011

Hav Subhash Kumar Chauhan (No. 9511249H now JC-804508H), 01 Aug 2011

Hav Praveen Kumar Gautam (No. 9511250X now JC-804509L), 01 Aug 2011

Hav Khalil Ahmed (No. 9511251A now JC-804510A), 01 Aug 2011

Hav Rajinder Sharma (No. 9511254N now JC-804511H), 01 Aug 2011

Hav Tej Bahadur Singh (No. 9511259M now JC-804512L), 01 Aug 2011

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2011 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Baskar S (No. 9510175M now JC-804513N), 16 Sep 2011**

Hav Ranjeet Kumar (No. 9511260F now JC-804514W), 01 Sep 2011

Hav Jugendra Singh (No. 9511261K now JC-804515Y), 01 Sep 2011

Hav Suresh Chandra Giri (No. 9511262M now JC-804516F), 01 Sep 2011

Hav Vijay Kumar (No. 9511263P now JC-804517K), 01 Sep 2011

Hav Kuldip Raj (No. 9511264X now JC-804518M), 01 Sep 2011

Hav Rajendar Singh Gurjar (No. 9511266H now JC-804519P), 01 Sep 2011

Hav Surender Kumar (No. 9511268N now JC-804520K), 01 Sep 2011

Hav Shashidhara Alva V (No. 9511270L now JC-804521M), 01 Sep 2011

Hav Avtar Singh (No. 9511271N now JC-804522P), 01 Sep 2011

Hav Saji KV (No. 9511273Y now JC-804524A), 01 Sep 2011

Hav Kuldip Katoch (No. 9511276M now JC-804525H), 01 Sep 2011

Hav Kamal Kumar CV (No. 9511284L now JC-804527N), 01 Sep 2011

Hav Arjun Singh (No. 9511287Y now JC-804528W), 01 Sep 2011

Hav Suresh Kumar K (No. 9511289K now JC-804529Y), 01 Sep 2011

Hav Kartar Singh (No. 9511290Y now JC-804530N), 01 Sep 2011

Hav Madan Lal (No. 9511292K now JC-804531W), 01 Sep 2011

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2011 without effect on pay and allowances)

PREM PARKASH
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 593, dated 24th November 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Rajender Kumar (JC-370372F), 01 Sep 2011

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Til Bahadur Rai (JC-634396Y), 01 Apr 2011

Nb Sub Sudhir Kumar (JC-841636X), 01 May 2011

Nb Sub Narendra Prasad (JC-841653K), 01 Jun 2011

Nb Sub Jarnail Singh (JC-754098Y), 01 Aug 2011

Nb Sub Mohinder (JC-240228H), 01 Sep 2011

Nb Sub Mohan Singh (JC-267345X), 01 Sep 2011

Nb Sub PSN Swamy (JC-724446A), 01 Sep 2011

Nb Sub Tejapl Singh Chauhan (JC-724510M), 01 Sep 2011

Nb Sub M Unnikrishnan (JC-306743X), 01 Sep 2011

Nb Sub Nripendra Sinha (JC-548630A), 01 Sep 2011

Nb Sub Meitankei Sangbam Ranjit Singh (JC-548954L), 01 Sep 2011

Nb Sub Ranbir Singh (JC-841702P), 01 Sep 2011

Nb Sub Alam Sher (JC-183409M), 01 Sep 2011

To be Nb Sub (GD)

Hav Krishna Kumar (No. 10358658F now JC-842968N), 01 Jun 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Rajinder Singh (No. 10465493L now JC-842976M), 01 Jul 2011**

Hav Rame Gowda (No. 10419851M now JC-842979A), 01 Jul 2011**

Hav Ranvir Singh (No. 10181566X now JC-842981X), 16 Jul 2011**

Hav Sita Ram Tiwari (No. 14357274Y now JC-842982A), 01 Jul 2011**

** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Singh Jat (No. 1056546H now JC-843000P), 01 Aug 2011***

Hav Boovendiran S (No. 10358158K now JC-843001X), 01 Aug 2011***

Hav V Narayana Reddy (No. 10358700P now JC-843002A), 01 Aug 2011***

Hav V Chandra Babu (No. 10358676K now JC-843003H), 01 Aug 2011***

Hav Rajbir Singh (No. 10134483F now JC-843004L), 01 Aug 2011***

Hav Babu Ram (No. 10479191K now JC-843005N), 01 Aug 2011***

Hav Alexander PV (No. 10373628F now JC-843006W), 01 Aug 2011***

Hav Anil Kumar Gurung (No. 5748894A now JC-843007Y), 10 Aug 2011***

*** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Bharat Singh (No. 2974991W now JC-843008F), 01 Aug 2011***

Hav Mahender Singh (No. 1013528F now JC-843009K), 12 Aug 2011***

*** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Varkey PC (No. 10290498L now JC-843012K), 01 Sep 2011****

Hav Suba Singh (No. 13853355N now JC-843013M), 01 Sep 2011****

Hav Surjan Singh (No. 2467690F now JC-843014P), 01 Sep 2011****

Hav Dhanesh Ojha (No. 14538852X now JC-843015X), 02 Sep 2011****

Hav Pooran Singh (No. 10302743X now JC-843018L), 01 Sep 2011****

Hav Uday Shankar Choudhary (No. 1068313N now JC-843019N), 01 Sep 2011****

Hav Bishnu Nayak (No. 4254711W now JC-843020H), 01 Sep 2011****

Hav Dil Prasad Rai (No. 9413882M now JC-843021M), 01 Sep 2011****

Hav R Raja Ram (No. 1367467M now JC-843022N), 02 Sep 2011****

Hav Shadi Ram (No. 10135182K now JC-843023W), 01 Sep 2011****

Hav Gorkhu Ram (No. 10361105W now JC-843024Y), 01 Sep 2011****

Hav Daulat Ram (No. 10361150H now JC-843025F), 01 Sep 2011****

**** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2011 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Khushi Ram Yadav (No. 14911335K now JC-842672P), 01 Oct 2011*****

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Md Osman Ali (No. 14903410N now JC-842992K), 01 Aug 2011*****

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2011 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Bipin Kumar Singh (No. 4266002N now JC-843010Y), 01 Sep 2011*****

Hav/Clk K Narayanan (No. 10166092K now JC-843011F), 01 Sep 2011*****

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2011 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (GD)

Hav P Sivanesan (No. 10451984W now JC-842932P), 01 Jun 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Babu D (No. 10165605F now JC-842945M), 01 May 2011**

** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Hav KP Venu (No. 10165532A now JC-842974F), 01 Jul 2011***

Hav V Laxmaiah (No. 10328133H now JC-842975K), 01 Jul 2011***

Hav Avtar Singh (No. 10361262H now JC-842977P), 01 Jul 2011***

Hav Anil Kumar (No. 10358512N now JC-842978X), 01 Jul 2011***

Hav Om Prakash (No. 13952080N now JC-842980P), 01 Jul 2011***

Hav Surjit Singh Lamboria (No. 14324687H now JC-842983H), 01 Jul 2011***

Hav Ram Kailash Trivedi (No. 14294103P now JC-842984L), 01 Jul 2011***

Hav Prem Narayan Tripathi (No. 14364252H now JC-842985N), 01 Jul 2011***

Hav Prasobhithan D (No. 10359407K now JC-842986W), 01 Jul 2011***

Hav Ashok Kumar (No. 14451011Y now JC-842987Y), 01 Jul 2011***

Hav Ugra Ram (No. 10302766Y now JC-842988F), 01 Jul 2011***

*** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Yarnale Virbhadrha Basapa (No. 10149597K now JC-842994P), 01 Aug 2011*****

Hav Karnail Singh (No. 4545497W now JC-842997X), 01 Aug 2011*****

Hav Sukhdev Singh (No. 3972484A now JC-842996A), 01 Aug 2011*****

Hav Man Bahadur Gurung (No. 5341788L now JC-842997H), 01 Aug 2011*****

Hav Kishan Chand (No. 3975932M now JC-842998L), 01 Aug 2011*****

Hav Haridhan Paul (No. 8027080K now JC-842999N), 01 Aug 2011*****

**** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2011 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Goverdhan Singh Pathania (No. 2468605A now JC-842990Y), 01 Aug 2011*****

Hav/Clk Ranvir Singh (No. 4550890H now JC-842993M), 01 Aug 2011*****

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2011 without effect on pay and allowances)

PRADEEP KUMAR
Under Secy

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL
ENGR BRANCH

No. 594, dated 24th November 2011—The President is pleased to make the following Appointment/Promotion :—

To be Nb Sub Welder

Surjeet Singh (No. 14590106K now JC-766245H), 01 Sep 2011

Man Bahadur (No. 14590270F now JC-766246L), 01 Sep 2011

Rohtash Singh (No. 14620762H now JC-766255M), 03 Aug 2011/01 Jul 2011*

To be Nb Sub Auto Tech B Veh

Praveen Kumar Thapa (No. 14573539L now JC-765299X), 01 Oct 2010

To be Nb Sub Armt Tech AFV (AD)

Kulwant Chand (No. 14588368F now JC-766263L), 01 Sep 2011

To be Nb Sub Auto Tech Elect B Veh

Kumar Sacidanand Singh (No. 14585670W now JC-766264N), 02 Sep 2011/01 Sep 2011*

Shri Krishna Tomar (No. 14587366K now JC-766265W),
01 Sep 2011

To be Nb Sub Mach

Mrigen Baruah (No. 14595573L now JC-766254K),
01 Sep 2011

Shish Ram (No. 14595216H now JC-766253F), 09 Aug
2011/01 Aug 2011*

To be Nb Sub Tech Comm

Ajay Kumar Jha (No. 14594533X now JC-766224M),
13 Aug 2011/01 Aug 2011*

*(Gtd ante dated seniority)

N K KASHMIRA
Under Secy

AIR FORCE

No. 595, dated 25th November 2011—The President is
pleased to make the following Substantive Promotion :—

INDIAN AIR FORCE

Flt Lt To be Subs Sqn Ldr

F(P) BRANCH

(Ms) SK Bhasin (28084) wef 21 Aug 2010

(Ms) N Hooda (28085), (Ms) AR Bhangaonkar (28086)
wef 19 Jun 2010

Fg Offr to be Subs Flt Lt

ADM BRANCH

R Arun Kumar (29753), VK Dhankar (29750), TN
Swamy (29751), Abhimanyu Singh (29752) wef 16 Dec
2009

LGS BRANCH

Rakesh Kumar Tripathi (29759), AS Rawat (29758),
Mukund Sharma (29760), Praveen Kandla (29754),
B Chakraborty (29755), SP Singh (29756), TV Bhosale
(29757) wef 16 Dec 2009

ACCTS BRANCH

Salil Singh (29761) wef 16 Dec 2009

EDN BRANCH

R Saxena (29768), V Kiran (29767), B Singh (29769),
R Goswami (29766), D Mathew (29763), GS Chauhan
(29765), Rajkumar M (29764) wef 16 Dec 2009

MET BRANCH

R Sharma (29412), SD Singh (29411) wef 16 Dec 2009

LGS BRANCH

M Sunil Kumar (29572), DP Singh (29571), NK Singh
(29570), UK Tripathi (29569), MN Afzal (29568), VC Raju
(29573) wef 16 Jun 2009

EDN BRANCH

Virendra Singh (29574) wef 16 Jun 2009

LGS BRANCH

Suneel Balhara (29770) wef 16 Dec 2009

EDN BRANCH

AK Arya (29571) wef 16 Dec 2009

AE(M) BRANCH

Sandeep Rana (29603), w.e.f. 27 Jun 2008

AE(L) BRANCH

Sriram Natarajan (29630), Jayakrishnan Thekkumpatt
(29627), Chetan Gosain (29620), Ankit Sharma (29619),
Saket Sehgal (29617), Shourya Bajpai (29616), S Sharma
(29648), Sandeep Sharma (29615), Kabi Prasad Dash
(29614), Pankaj Narayan (29608), P R Kalidindi (29607),
Jotha Bala Mahender (29606), Bharat Naidu Gangineni
(29605), Ashish Vashisht (29604), Baldeep Singh (29645),
A Louis (29672), Cheramannan C (29650), TS Baba
(29649), Amit Kumar Lawania (29640), Premvir Singh
(29639), Pritpal Singh (29644), Apoorva Gaurav (29643),
Sunny Dhanraj Sharma (29642), Anshuman Hota (29641),
Fahad Kamal (29638), Sumeet Kumar (29636), Firoz
Meeran Sahib (29634), Kishan Chandra Tripathi (29633),
Ankit Dixit (29647), Tanish Arora (29646), Rahul Tripathi
(29629), Vijit Kumar (29626), Fidaullah Zaffari (29625),
Shubhanshu Srivastava (29624), Vipul Upadhyay (29621),
Navneet Gaur (29612), Shalabh Sharma (29611), V R K
Muppa (29609), Jai Bihari Mathur (29632), Deepak Sharma
(29631), wef 27 Jun 2008

Fg Offr to be Subs Flt Lt

SHORT SERVICE COMMISSION

AE(M) BRANCH

Indu Yadav (29655), Deepesh Kumar Yadav (29652)
wef 02 Jul 2009

AE(L) BRANCH

Rajit Kumar (29653), Priyanka Shadangi (29668),
Bhawna Chauhan (29667), Archana Srinivas (29663),
Khushboo Gupta (29660), Pragya Tambe (29659), Archana
Subhash Rai (29658), Kanchan Sharma (29656), Shobhit
Johri (29654), Mohammad Ismael (29637), Mohammed
Arqam Muallim (29613), Deepti Dubey (29664), Suvasita
Khare (29666), Tulika Singh (29665) wef 02 Jul 2009

AE(L) BRANCH

Nisha Goverdhan (29669) wef 08 Jul 2009

ADM BRANCH

HK Singh (29567) wef 01 Jul 2009

CV Suresh (29601) wef 16 Jul 2009

ADM BRANCH

K Bisht (29580), A Mishra (29581), D Sonkar (29582)
wef 16 Jun 2009

LGS BRANCH

S Garg (29584) wef 16 Jun 2009

ACCTS BRANCH

V P Kamakshi (29586), Rajratna Negi (29587), T Singh
(29588), N Rana (29589), Apeksha Mishra (29585) wef
16 Jun 2009

EDN BRANCH

Reena (29591), C Gulia (29590), N Fatima (29595),
SS Chitre (29594), K Kumari (29593), K Thakuri (29596),
Sucheta (29592) wef 16 Jun 2009

MET BRANCH

Bharti Vats (29173), Ashwini Bharat Kadam (29172)
wef 16 Jun 2009

ADM BRANCH

BK Dubey (29775), PK Singh (29774), HS Chahar
(29780), Vikas Kumar (29772), VS Parihar (29779), Sunil
Kumar (29781), P Singh (29782), S Mishra (29783), DS
Malik (29773), SC Sahu (29778), R Sharma (29777),
Ankush Gupta (29776) wef 16 Dec 2009

LGS BRANCH

VK Sharma (29788), VK Jadhav (29789), RK Gupta
(29785), BB Prakash (29786), Naresh Kumar (29784),
A Kumar (29787) wef 16 Dec 2009

ACCTS BRANCH

Suraj Mathai (29790) wef 16 Dec 2009

ADM BRANCH

S Mahajan (29578) wef 16 Jun 2009

ACCTS BRANCH

T R Aneesh (29579) wef 16 Jun 2009

ADM BRANCH

O K Tripathi (29526), A S Sunoj (29535), P Tejodhar
(29524), S S Mishra (29523), S Dutta (29522), P Sinha
(29521), M Kumar (29530), A Sathianandan (29529), D
Lohkna (29528), D K Sangwan (29527), A S Dogra (29542),
A K Jha (29540), K M Ray (29539), K R Deepesh (29538),
A Chaturvedi (29541), J K Lohani (29520), S Chander
Kant (29534), S Das (29533), S C Sajja (29532), Y S
Reddy (29531), S S Chahal (29537), S Lakhwat (29536),
A K Mishra (29525) wef 16 Jun 2009

LGS BRANCH

R R K Sinha (29545), D K Mahapatra (29546), D D
Kaura (29547), A Sharma (29548), G Hari Prasad (29543),
C R Gondkar (29544) wef 16 Jun 2009

ACCTS BRANCH

R Singh (29552), K Rajaure (29553), S Vohra (29554),
N P Singh (29551), A M Tiwari (29550), F Cardoso (29549)
wef 16 Jun 2009

EDN BRANCH

M Prem Kumar (29563), Sijomon K V (29564), R Kumar
(29565), A Muralidharan (29562), Amod Joshi (29555), T
K Sumesh (29561), K J M Reddy (29557), V Krishna Kumar
(29556), V K Sharma (29558), Sanjay Kumar (29559), K
K Sharma (29560) wef 16 Jun 2009

MET BRANCH

S Das (29566), Anil (29171) wef 16 Jun 2009

ADM BRANCH

Aditi Maghav (29798), V Sharma (29799), P Yadav
(29800), P Verma (29797), P Yadav (29801), K Rana
(29804), P Chahal (29803), A Singh (29802) wef 16 Dec
2009

LGS BRANCH

P Singh (29808), V Tomar (29809), Arpita Steele
(29810), Shilpee Sharma (29807), S Chopra (29805), P
Joon (29806) wef 16 Dec 2009

ACCTS BRANCH

Sonia Rekhi (29816), D Singh (29815), D Dhabhai
(29814), S Bohra (29813), S Bisht (29812), Pallavi Chauhan
(29811) wef 16 Dec 2009

EDN BRANCH

A Singh (29817), S Pandey (29818) wef 16 Dec 2009

MET Branch

T Yadav (29413) wef 16 Dec 2009

AE (L) BRANCH

Navidita Sharma (29862), Sapna Janardhan (29859), A
K Singh (29858), Manish Ahuja (29857), Ritu Nayak
(29860), Sheetal Tanwar (29863), Bhoomika Anand (29868),
Sujata (29867), Parminder Kaur (29866), Neha Gupta
(29865), Sumati Chandra (29864), Charu Sharma (29861)
wef 07 Jan 2010

T KHAVE
Wing Commander
Jt Dir
Personnel Offrs-3(D)

DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH &
DEVELOPMENT(DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT
ORGANISATION)

No. 596, dated 25th November 2011—The President is
pleased to make the following promotions :—

ACTING CMDE TO SUBS CMDE

Rank & Name (No.), Subs Rank to be granted from

Cmde Ranjit Singh (50993T) Elect, 01 Jul 2010

RAVI DUTT
Jt Dir (Pers)
for DG Res & Dev

No. 597, dated 25th November 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

G K Satyanarayana, Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 31 Mar 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay of Rs. 4,600/-

K Padmavathi, Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 14 Jul 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay of Rs. 4,600/-

T N Chetanananda to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 06 Jun 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,30—34,800 (PB-2) and Grade Pay of Rs. 4,600/-

Mohd Moinuddin Khan, Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 12 May 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay of Rs. 4,600/-

Kumari M A Vijayalakshmi, PS 'A', Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 08 Jun 2011 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and Grade Pay of Rs. 4,600/-

V P SINGH
Dy Dir (Pers)

No. 598, dated 25th November 2011—The President is pleased to promote the following Scientists of ARDE, Pune

from their existing grade to the next higher grade in the same establishment with effect from 01 Jul 2011 (F/N) as mentioned against each :—

Name, Existing Grade, Grade to which promoted, Pay Band + Grade Pay

A S Asthana, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 37,400—67,000/- + 8,900/-

V S Tamhankar, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 37,400—67,000/- + 8,900/-

L C Moon, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 37,400—67,000/- + 8,700/-

HARISH MOHAN
Dy Dir (Pers)

ARMY BRANCH

No. 599, dated 28th November 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

CORRIGENDUM

Lt Col to be Subs Col (By Selection)

For

Ser (Pers No.) Name, Arm/Service, Subs Col

120 (IC-41997) N K Davas, Inf, 01 Apr 2006

Read

Ser (Pers No.) Name, Arm/Service, Subs Col

120 (IC-41997) N K Dabas, Inf, 01 Apr 2006

T K DAS
Dy Dir
MS-8A